

अपने COVID-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करें

Hindi

अपना टीका लगवाने के बाद आपकी **इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट** पर आपके COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण को रिकॉर्ड किया जाएगा।

आप निम्नलिखित माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं:

- आपका मेडिकेयर ऑनलाइन एकाउंट
- Express Plus Medicare app
- Australian Immunisation Register या;
- My Health Record

मेडिकेयर ऑनलाइन एकाउंट (Medicare online account)

1. अपने **myGov** एकाउंट (my.gov.au) पर साइन इन करें और **Medicare** चुनें
2. **Immunisation history (इम्युनाइजेशन हिस्ट्री)** सैक्शन से, **View statement (स्टेटमेंट देखें)** पर क्लिक करें
3. अपने नाम का चयन करें
4. **View history statement (हिस्ट्री स्टेटमेंट देखें (PDF))** पर क्लिक करें

Express Plus Medicare app

1. एप्प खोलें और साइन इन करें
2. **Services section (सेवा सैक्शन)** से, **Immunisation history** चुनें
3. अपने नाम का चयन करें
4. **View history statement (PDF)** पर क्लिक करें

ऑस्ट्रेलियाई इम्युनाइजेशन (टीकाकरण) रजिस्टर (Australian Immunisation Register)

Australian Immunisation Register को सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच **1800 653 809** पर फोन करें।

उन्हें आपको आपकी **immunisation history statement** भेजने के लिए कहें। डाक से इसके आने में 14 दिन तक का समय लग सकता है।

यदि आपको दुभाषिए की ज़रूरत है, तो कृपया **टेलीफोन दुभाषिया सेवा (TIS)** को **131 450** पर फोन करें।

माई हेल्थ रिकॉर्ड (My Health Record)

यदि आपके पास मेडिकेयर कार्ड नहीं है, तो आप **My Health Record** से अपनी **इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट** प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

1. अपने **myGov** एकाउंट (my.gov.au) पर साइन इन करें और **My Health Record** चुनें
2. अपने नाम का चयन करें
3. **Documents (दस्तावेज़)** सैक्शन से **Immunisations (टीकाकरण)** चुनें

अपनी इम्युनाइजेशन हिस्ट्री स्टेटमेंट तक पहुँच कैसे प्राप्त करनी है, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए servicesaustralia.gov.au/ihs देखें

COVID-19 Vaccination Program in NSW के बारे में और अधिक पता लगाने के लिए, health.nsw.gov.au/covid-19 देखें



Australian Government
Department of Health

